



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 पौष 1940 (श0)  
(सं0 पटना 46) पटना, सोमवार, 14 जनवरी 2019

---

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

26 फरवरी 2018

सं० 7/प्र0-03-1003/10-368— जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर विभागीय अधिसूचना संख्या 874 दिनांक 15.09.2016 के क्रमांक 92 पर अंकित श्री गणेश प्रसाद, (आई0 डी0 संख्या -जे0-7527 वरीयता क्रमांक- 5385) को औपबंधिक रूप से प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रदान की गई थी ।

2. श्री प्रसाद को विभागीय अधिसूचना संख्या 6150 दिनांक 29.11.2016 द्वारा अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सिचाई अवर प्रमंडल-1, झांझा (सिचाई प्रमंडल, झांझा) के रूप में पदस्थापित किया गया था ।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या 276 सह पठित ज्ञापांक 1950 दिनांक 02.09.2016 द्वारा नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित होने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या 874 दिनांक 15.09.2016 के कंडिका 5 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त अधिसूचना के क्रमांक 92 पर अंकित श्री गणेश प्रसाद, (आई0 डी0 संख्या-जे0-7527 वरीयता क्रमांक-5385) को सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर औपबंधिक रूप से प्रदत्त प्रोन्नति को रद्द किया जाता है ।

4. श्री गणेश प्रसाद कनीय अभियंता के रूप में मुख्यालय, जल संसाधन विभाग में योगदान करेंगे ।
5. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा ।

आदेश से ,  
जीवनेश्वर रजक,  
सरकार के उप सचिव-1 (प्रबंधन)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 46-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>